Registered Office

Akashdeep Metal Industries Limited

CIN: L28998DL1983PLC017150

14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext, Delhi-110092 Tel: +91-11-43011038

Email: <u>info.akashdeep14@gmail.com</u>
Website: www.akashdeepmetal.in

November 09th, 2022

To,
Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street,
Fort, Mumbai- 400001

Scrip Code: 538778

<u>Sub: Publication of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended on September 30th, 2022</u>

Dear Sir,

In compliance with the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended on September 30th, 2022 published in "Financial Express" (in English) and "JANSATTA" (in Hindi) on 09th November, 2022.

Kindly take the same on your record.

Thanking you

For Akashdeep Metal Industries Limited

RAJESH Detection of the control of t

Rajesh Gupta Managing Director DIN: 00006056 25, Hargobind Enclave, Delhi-110092

Enc: a/a

FINANCIAL EXPRESS

Quarter Ended

30.09.2021

Unaudited

2,08,83,856

70,54,884

70,54,884

45,56,477

45.56.477

8,50,26,210

12,31,43,276

0.54

30.09.2021

97,41,148

18,26,236

9,92,725

For Akashdeep Metal Industries Limited

Chairman & Managing Director

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED Registered Office: 14 Dayanand Vihar, Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi- 110092 Tel: +91-11-43011038. Website: www.akashdeepmetal.in. Email: info.akashdeep14@gmail.com

CIN: L28998DL1983PLC017150

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

Quarter Ended

30.09.2022

Unaudited

4,93,55,115

1,17,91,060

1,17,91,060

92,87,120

92.87.120

10,50,26,210

28,44,59,003

The above is an extract of the detailed format of result for Quarter and Half-Year ended on 30th September, 2022 filed with stock exchange

are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the Company's website at www.akashdeepmetal.in.

The Key information of Standalone Financial Results for Quarter and Half-Year ended on 30th September, 2022 are given below:

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results

0.88

30.09.2022

4,02,91,569

65,21,894

51,46,615

Quarter Ended | Quarter Ended

Particulars

Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/

Particulars

(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive

Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-)

Earning Per Share (of Rs.10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Total Income from operations

and/or Extraordinary items)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Income (aftertax) 1

Other Equity

Basic

Diluted

Turnover

Place: Delhi

Profit before tax

Profit after tax

Dated: November 07, 2022

Notes:

S.

No.

No.

Managing Director

(Amount in Rupees

Year Ended

31.03.2022

Audited

9,69,11,081

3,22,85,509

3,22,85,509

2,56,77,406

2,58,11,004

8,50,26,210

21,27,74,476

Year Ended

31.03.2022

4,08,85,162

53,93,342

41,61,672

Rajesh Gupta

DIN: 00006056

By order of the Board

3.04

3.04



BIRLA CORPORATION LIMITED

CIN-L01132WB1919PLC003334

Regd. Office: 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001 (An MP Birla Group Company) E-mail: coordinator@birlacorp.com

Website: www.birlacorporation.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR

Phone: (033) 6616 6745/6729; Fax: (033) 2248 2872/7988

THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022	
(₹ in Cron	es)

	Consolidated			
Particulars	Quarter Ended 30th Sept, 2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30th Sept, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30th Sept, 2021 (Unaudited)	
Total Income from operations (Net)	2,041.58	4,259.64	1,711.10	
2. Net Profit / (Loss) before tax and exceptional items	(82.48)	6.31	119,18	
3. Net Profit / (Loss) before tax after exceptional items	(82.48)	(5.34)	119.18	
4. Net Profit / (Loss) after tax	(56.46)	5.46	85.55	
 Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax) 	(31.24)	(19.11)	140.71	
 Paid-up equity share capital (Face Value ₹ 10/- Per Share) 	77.01	77.01	77.01	
 Reserves (excluding Revalution Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year 	5,026.34 (As on 31/03/2022)	5,026.34 (As on 31/03/2022)		
8. Basic and Diluted Earnings Per Share for the period (₹)	(7.33)	0.71	11.11	

Kolkata

8th November, 2022

 The above results were reviewed by the Audit Committee on 7th November, 2022 and taken on record by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 8th November, 2022. The Statutory Auditors of the Company have expressed an unmodified opinion on these financial results.

Key Standalone Financial Information:

Particulars	Quarter Ended 30th Sept, 2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30th Sept, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30th Sept, 2021 (Unaudited)
Total Income	1,305.85	2,684.99	1,101.51
Net Profit / (Loss) before tax and exceptional items	(28.15)	10.58	59.13
Net Profit / (Loss) before tax after exceptional items	(28.15)	(14.88)	59.13
Net Profit / (Loss) after tax	(17.10)	(3.33)	41.77

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results is available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.birlacorporation.com).

For Birla Corporation Limited

(HARSH V. LODHA) Chairman DIN 00394094

MP Birla Cement: Cement se Ghar tak

KERALA STATE CASHEW DEVELOPMENT CORPORATION Ltd.

Cashew House, Kollam. Phone: 0474-2742271,2742172 Website: www.cashewcorporation.com Email. ho@cashewcorporation.com

Tender Notice E-tenders are invited for the following.

1. Portable Billing Terminals 2. Dry roasting Machine 3. Various Civil Construction works. More details can be download from the website www.etenders.kerala.gov.in

PUBLIC NOTICE OF AUCTION Notice is hereby given by the undersigned to the public in general that the below mentioned assets and items owned by Gujarat NRE Coke Limited - in Liquidation "GNCL"), is being sold 'via e-Auction' under the terms and conditions specified below. The sale is without any kind of warranties or indemnities.

Gujarat NRE Coke Limited - in Liquidation

Auction Date Wednesday, December 07, 2022, from 11:00 AM to 5:00 PM. Each auction will have an unlimited extension of "5 minutes" i.e. the end and Time time of the e-Auction will be extended by 5 minutes each time if bid is made within the last 5 Minutes before the closure of the auction.

Set of Power Plant Equipments (Collectively) of Gujarat NRE Coke Limited (in Liquidation) at Dharwad, Kamataka, and Investments in Assets / Items unlisted equity shares, the details of which are available in the for Sale

All interested buyers must adhere to the relevant and applicable

IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

process memorandum on the website www.gujaratnrecoke.com Block A: Set of Power Plant Equipments -Reserve Price INR 23,39,82,843 (Rs. 23.40 crores) Block B: Investments in unlisted equity shares-INR 5,52,83,135 (Rs. 5.53 crores) (The above reserve price is excluding any applicable taxes)

the Auction Terms and Conditions or Process Memorandum (as the case may be) hosted on the website www.quiaratnrecoke.com Last date for 07:00 PM on Monday, December 05, 2022 submission of EMD

To schedule inspection, please write to 6 Inspection liquidator.gncl@decoderesolvency.com with details requesting the same. All interested bidders are advised to contact the undersigned only by email, by

Liquidator sumit binani@hotmail.com IBBI Registration Number Place: Kolkata

writing to liquidator.gncl@decoderesolvency.com, no other modes of

FASHIONING POSSIBILITIES

communication would be entertained.

Date: November 09, 2022

Sr.

No.

4 Participating in

ARVIND LIMITED A MEMBER OF LALBHAI GROUP CIN - L17119GJ1931PLC000093 Regd. Office: Naroda Road, Ahmedabad - 380 025

Website: www.arvind.com Email: investor@arvind.in STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 [₹ In Crores except per share data]

Particulars Quarter Ended Half Year Ended Year Ended 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Total Income from Operations 2,181.23 2,360.57 2,125.57 4,541.80 3,569.61 8,059.77 109.17 126.21 123.37 235.38 132.44 419.71 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 149.69 126.21 123.37 275.90 130.08 410.42 127.25 108.83 75.86 236.08 70.03 259.44

Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other 57.29 78.05 170.26 59.02 112.97 232.89 Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share) 260.90 260.84 259.04 260.90 259.04 260.59 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous 2689.94 Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) - (Not Annualised) Basic : (₹) 4.79 4.06 2.87 2.77 9.86 8.85 4.79 2.85 8.83 2.75 4.04 9.81

The above consolidated unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been Considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 8, 2022. The same have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.

The Company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 are available on the websites of the stock exchanges, www.bseindia.com , www.nseindia.com and the Company's website, www.arvind.com

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2022, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com , www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com

Place: Ahmedabad Punit S. Lalbhai Date: November 08, 2022 **Executive Director**

...continued from previous page.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The

Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6 (1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders and (out of which one third shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹ 200,000 up to ₹ 1 million and two-thirds shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹ 1 million) and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPLID in case of UPL Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self

Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA Process. For further details, see "Offer Procedure" on page 511 of the RHP.

Bidders/ Applicants should ensure that DP ID, PAN, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID. PAN. Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/ Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders'/Applicants' sole risk. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated Feb 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see the section "History and Certain Corporate Matters' on page 228 of the RHP. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see the section entitled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 548 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP. the authorised share capital of the Company is ₹ 2,353,000,000 divided into 235,300,000 Equity Shares of ₹ 10 each and ₹ 4,200,000 divided into 420,000 Preference Shares of face value ₹10 each. The authorised share capital of our Company upon consummation of the Toccata Scheme will be 428,000,000 Equity Shares of face value ₹10 each and 420,000 preference shares of face value ₹10 each. There will no changes to the issued, subscribed, and paid-up share capital of our Company The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is ₹ 1,035,262,220 divided into 103,526,222 Equity Shares of ₹ 10 each. For details, please see the

section entitled "Capital Structure" beginning on page 95 of the RHP.

NAMES OF THE INITIAL SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The initial signatories to the Memorandum of Association are Bornan Rustom Irani (25 equity shares of ₹10 each) and Tehmton Irani (25 equity shares of ₹10 each). For details of the share capital history and capital structure of our Company, please see the section entitled "Capital Structure" beginning on page 95 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares, once offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Stock Exchanges. Our Company has received 'in-principle' approvals from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters dated August 8, 2022, each. For the purposes of the Offer, the Designated Stock: Exchange shall be BSE Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Sections 26(4) and 32 of the Companies Act, 2013. For further details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus until the Bid/ Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 548 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer document. The investors are advised to refer to page 487 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of SEBI. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the

permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the RHP has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the RHP. The investors are advised to refer to page 494 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of BSE. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in

any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 495 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of NSE.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 34 of the RHP.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON MAIN BOARD PLATFORM OF BSE AND NSE

ASBA

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, For further

> Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

details, check section on ASBA.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, DPs & RTAs. Retail Individual Investors and Non-Institutional Bidders also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 511 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges") and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/ OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=43; respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link; www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Axis Bank Limited and Kotak Mahindra Bank Limited has been appointed as the Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For offer related gueries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related gueries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail ld: ipo.upi@npci.org.in.

REGISTRAR TO THE OFFER

		THE STOTE OF THE S			
AXIS CAPITAL	CREDIT SUISSE	LINK Intime	Bimal K Nanda 702, Natraj, MV Road Junction, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, India. Tel: +91(22) 6676 6888		
Axis Capital Limited	Credit Suisse Securities (India) Private Limited	Link Intime India Private Limited	E-mail: cs@rustomjee.com		
1° floor, Axis House C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India. Tel.: +91 22 4325 2183 E-mail: rustomjee.ipo@axiscap.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Contact Person: Pratik Pednekar / Pavan Naik	9" Floor, Ceejay House Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018 Maharashtra, India. Tel: +91 22 6777 3885 E-mail: list.rustomjeeipo@credit-suisse.com Investor grievance e-mail: list.igcellmer-bnkg@credit-suisse.com Website: https://www.credit-suisse.com/in/en/investment-banking-apac/investment-banking-in-india/ipo.html Contact person: Ish Sahai	C-101, 1"Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 4918 6200 / +91 810 811 4949 E-mail: rustomjee.ipo@linkintime.co.in Investor grievance E-mail: rustomjee.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan	Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and		

SEBI Registration no.: INM000011161 SEBI Registration No.: INM000012029 AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 34 of the RHP shall be available on the websites of the BRLMs, i.e. Axis Capital Limited and Credit Suisse Securities (India) Private Limited at

SEBI Registration No.: INR000004058

Company Secretary and Compliance Officer

for redressal of complaints, Investors may also write to the BRLMs.

www.axiscapital.co.in and https://www.credit-suisse.com/in/en/investment-banking-apac/investment-banking-in-india/ipo.html; respectively and on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of KEYSTONE REALTORS LIMITED, Tel: +91 22 4325 2183 and Credit Suisse Securities (India) Private Limited, Tel: +91 22 6777 3885; and at the select locations of the Subsyndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer, ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Axis Securities Limited, Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, Anand Share Consultancy, ANS Pyt Limited, ICICI Securities Limited, ICICI Securities Limited, ICICI Securities, JM Financial Services Limited, Kalpataru Multiplier Limited, ICICI Securities Limited, ICICI Securities, JM Financial Services Limited, Kalpataru Multiplier Limited, ICICI Securities, ICICI Securities, JM Financial Services, Limited, Kalpataru Multiplier Limited, ICICI Securities, ICICI Securities, JM Financial Services, Limited, Kalpataru Multiplier Limited, ICICI Securities, ICICI Securities, JM Financial Services, Limited, Kalpataru Multiplier Limited, ICICI Securities, ICICI Securitie Kantilal Chhaganial Securities, Keynote Capitals Limited, KJMC Capital Market Services Limited, Marwadi Shares & Finance, Motilal Oswal Financial Services Limited, Nirmal Bang Securities Pvt Limited, O J Financial Services Limited, Patel Wealth Advisors Pvt Limited, Prabhudas Lilladher Pvt Limited, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited and Tanna Financial Services

Escrow Collection Bank/ Refund Bank: Axis Bank Limited Public Offer Account Bank: Kotak Mahindra Bank Limited

Sponsor Banks: Axis Bank Limited and Kotak Mahindra Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For KEYSTONE REALTORS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Bimal K. Nanda Company Secretary and Compliance Officer

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

Date: November 8, 2022

Adfactors 373 R

New Delhi

KEYSTONE REALTORS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC on November 5, 2022. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs, i.e. Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in and https://www.credit-suisse.com/in/en/investment-banking-apac/investmen in-india/ipo.html, respectively. Any potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

HDFC BANK

We understand your world

pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

कार्यालयः साई विहार, मदन पैलेस के सम्मुख, ग्राम तलाशपुर कलां, रामघाट मार्ग, अलीगढ़, 202001, ईमेल: cs8183@pnb.co.in

आप सभी को अधोवर्णित प्रतिभृतियों के अंतर्गत एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि बैंक ने सरफॉएसि अधिनियम के तहत आप में से प्रत्येक के विरुद्ध कार्यवाहिया प्रारंभ कर दी हैं और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सचना आप में से प्रत्येक को पृथक रूप में निम्नांकित तिथि को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जा चुकी थी, परंतु सचना आपको प्राप्त ही नहीं हो पाई। अतः आप में से प्रत्येक को एतदद्वारा यह सचना प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों की समयाविध में निम्न विवरणित बकाया राशि का संयुक्त एवं पृथक रूप में भूगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्न वर्णित संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सचना आपको बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय के पर्वाग्रह के बिना सम्बोध्य है। ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें तथा इन संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निर्धारित बकाया धनराशियों तथा इन धनराशियों पर ब्याज हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के लिए 60 दिवसीय सूचना

कपया यह सचना भी प्राप्त कर लें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप इस सचना की प्राप्ति के उपरांत उपरोक्त संदर्भित किसी भी प्रतिभुत परिसंपत्ति का बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सुचित किया जाता है कि इस सांविधिक निषेध / प्रतिबंध का यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार ऐसा होना एक अपराध है। यदि किसी कारणवश, प्रतिभूत परिसंपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत विक्रय किया जाता है अथवा उन्हें पट्टे पर दिया जाता है तो विक्रयगत आय अथवा वसूलीगत आय बैंक में / उसके पास जमा / प्रेषित होगी। आपको ऐसे वसूलीकरण / आय के समूचित खाते को बनाकर रखना होगा। कृपया इस सूचना के अंतर्गत निर्गत इस मांग का अनुपाल करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में आपको समस्त लागतों एवं परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

क्र. सं.	कार्यालय	 खाता संख्या, 2. सुविधा की प्रकृति एवं साश, मांग सूचना की तिथि, 4. बकाया राशि (रु.) 	ऋणकताआ/गास्टरा का नाम एव पता	प्रातसूत पारसपात्तया का विवरण
	मथुरा	2. टीएलईएमटी 3. 26.09.2022 4. रु. 10,42,813.06 (रुपये दस लाख बयालिस हजार आठ सौ तेरह एवं छह पैसे मात्र)	2. बिल्ला देवी पत्नी धर्मा, पता : 1305, अग्रवाल कॉलोनी, नंदगांव मार्ग, कोसीकलां, मथुरा (उ.प्र.) 281403 3. धर्मा पुत्र हंदू, पता : 1305, अग्रवाल कॉलोनी, नंदगांव मार्ग,	पत्नी धर्मी के नाम पर है जो भूखंड सं. 70, मीजा बरहाना, अग्रवाल कॉलोनी, कोसीकलां, जनपद—मथुरा में स्थित हैं, जिनका अधिमापन 93 वर्ग मीटर है और जो इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– भूखंड तारा पश्चिम– रास्ता 12 फुट उत्तर– भूखंड सं. 73 इंद्रपाल दक्षिण– भूखंड सं. 65
दिनांक :	07.11. 2022, स्था	न : अलीगढ़		प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय: एचडीएफर्सी बैंक हाउस. सेनापति बापत मार्ग. लोअर परेल (वेस्ट). मम्बर्ड-400013 अंचल कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष प्रचालन विभाग, 5वां तल, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नं. 1, निकट कम्युनिटी सेंटर, जे-ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 ई-नीलामी बिक्री सचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक बिक्री सुचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को सुचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनयम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग के अनुपालन में बैंक के बकाए तथा नीचे वर्णित ब्याज की वसुली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है तथा ऋणधारक द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाए की वसुली के लिए अधीहस्ताक्षरी ''जहां है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचे वर्णित सम्पत्ति की वेब पोर्टल "ttps://www.bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। अचल सम्पत्तियों का विवरण/खाते/राशि/ईएमडी/आदि का विवरण

शाखा एवं खाता ⁄कर्जदार का नाम	सम्पत्ति के बंधककर्ता तथा जमानती का नाम	सम्पत्ति का विवरण	माग सूचना के अनुसार राशि माँग सूचना की तिथि	आरक्षित मृल्य ईएमडी संविदा वृद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि एवं समय
	जमानती : श्री गिरीश भाटिया,	पलैट नंबर डी -878, पहली मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110065 की आवासीय संपत्ति	सचना दिनांक : 17 मई. 2019	रु.3,59,00,000/ रु.35,00,000/- रु. 1,00,000/- ई-नीलामी की तिथि/स 11,00 बजे पूर्वा. से	

अधिकृत प्राधिकारी का नाम/दूरभाष नं./ई-मेल आईडी : श्री संजय शर्मा, मोबाइल : 9811022575, sanjay.sharma@hdfcbank.com नियम एवं शर्ते

ं संविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि : 22.11.2022 को 4.00 बजे अप. तक

IDFC FIRST

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है, जो है यही है, जो भी वहां है तथा उपचार-रहित आधार'' पर आयोजित की जा रही है।

2. इच्छक बोलीदाता को वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ईएमडी का भगतान अधोलिखत खाताः 57500000904261, खाता नामः DFSO TRANSITORY ACCIVET, लाभभोगी का नामः एचडीएफसी बैंक लि.. आईएफएससी कोडः HDFC0000240 में एनईएफटी/ आस्टीजीएस द्वारा या एचडीएफसी बैंक लि., खाता नं. 57500000904261 के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति के लिए ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को 4.00 बजे अप. या उससे पूर्व किया जाएगा। कपया ध्यान दें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में बैंक के रिकार्ड के अनुसार प्रकटित को छोड़कर सम्पत्ति पर कोई सांविधिक बकाए जैसे सम्पत्ति कर, सोसायटी बकाए, बिजली के बकाये आदि नहीं है। फिर भी बैंक. यदि कोई हो किसी भी सांविधिक बकाए/ऋणभारों/नगर निगम बकाये/बिजली के बकाये, प्रभार/कर बकाये आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छक बोलीदाता अधिभारों, सम्पत्तियों के टाइटल के ऋणभार, विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतष्ट कर लें। सम्पत्ति का निरीक्षण ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में ही किया जा सकता है।

4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें लागिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, हमारे सेवा प्रदाता मै. सी 1 इंडिया ्रपा. लि., प्लॉट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्प लाइन नं. 0124-4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, श्री विनोद चौहान, मोबाईलः 9813887931, हेल्प लाइन ईमेल आईडीः Support@bankeauctions.com से संपर्क करें तथा सम्पत्ति संबंधी पूछताछ के लिए उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (10 बजे पूर्वा. से 5 बजे सायं) के दौरान कार्य दिवसों को सम्पर्क करें।

5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृति के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बकाए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/ बोलियों को स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम (विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा /www.bankeauctions.com से संपर्क करें।)

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत 30/15 दिनों की सांविधिक बिक्री सचना

इसे उपर्युक्त तिथि पर ई–नीलामी बिक्री की धारिता के विषय में उपर्युक्त कथित ऋण के कर्जदारों/तथा जमानतियों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के तहत सूचना भी मानी जाए। एतद्द्वारा ऋणधारकों/

गारन्टरों को सचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जाएगी। तिथि: 09.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792 **पंजीकत कार्यालय** : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031.


दरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

2. प्रदीप प्रेम चंद

3. अनिताश्री चंद

तिथि : 09.11.2022

स्थान : गाजियाबाद



निम्नलिखित कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) से निम्नलिखित प्रतिभूत ऋण ग्रहण किया। निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों के ऋण उनकी सम्बन्धित सम्पत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत हुए हैं। चूंकि वे सम्बन्धित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहे और अनियमित हो गये थे अतः भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके ऋण एनपीए वर्गीकृत कर दिये गये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) द्वारा उनकी ओर बकाया राशि जारी की गयी सम्बन्धित सचनाओं के अनुसार वर्णित हैं जो निम्नलिखित तालिका में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं तथा कथित राशियों पर भावी ब्याज भी प्रयोज्य होगा और इसे उनकी सम्बन्धित तिथियों से अनुबन्ध दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	कर्जदारों तथा सह- कर्जदारों के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	15245024	गृह ऋण	1. चमन जहां 2. मोहम्मद यूसुफ अंसारी	15.10.2022	14,94,475.92/-	आवासीय फ्लैट संख्या एसएफ-II का समस्त भाग, दूसरी मंजिल, एल.आई.जी. टाइप, बैक साइड एल.एच.एस. (छत अधिकारों के साथ), माप 450 वर्ग फीट यानी, 41.805 वर्ग मीटर., संपत्ति पर्निर्मित प्लॉट नं. बी-162, विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन, गांव-पसोंदा, परगना-लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद (उ.प्र.) पर स्थित है और सीमाएँ: पूर्व: सड़क 40 फीट चौड़ी, पश्चिम सर्विस लेन उत्तर: प्लॉट नं. 161, दक्षिण: प्लॉट नं. 163
2	14810404	गृह ऋण	1. कुंवरपाल 2. कमलेश देवी	19.10.2022	19,63,444.40/-	पलैट नं. 6 का समस्त भाग, एमआईजी, सामने की ओर दूसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ) कुल कवर क्षेत्र 75 वर्ग गज अर्थात 62.70 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 41, 42 पर निर्मित, खसरा नं. 1302, पी.एन. विहार, ग्राम लोनी (बाहरी चकबंदी), परगना-लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबात (उ.प्र.) पर स्थित, और सीमा: पूर्वः रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिमः प्लॉट दीगर मालिक, उत्तरः प्लॉट नं. 40, दक्षिणः प्लॉट दीगर मालिक
3	21414287 तथा 33867809	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	 मोहम्मद इमामुद्दीन अरिफा क्रमुदीन इरफान हकीमुदीन 	19.10.2022	11,97,247.33/-	प्लॉट नं 162-सी का समस्त भाग, प्लॉट एरिया 32 वर्ग गज यानी, 26.75 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 66.88 वर्ग मीटर, लक्ष्मी गार्डन, नीलम फैक्ट्री रोड, गांव- धरोती खुर्द, परगना और तहसील-लोनी, जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.) पर स्थित है, और, सीमाएँ : पूर्व: संपत्ति दीगर मालिक, पश्चिम: संपत्ति दीगर मालिक, उत्तर: सड़क 100 फीट चौड़ी, दक्षिण: सम्पत्ति दीगर मालिक
4	18364501	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. मोहम्मद इकबाल 2. मैसर्स अक्सी एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल 3. शबनम निजामुद्दीन	19.10.2022	46,86,035.45/-	प्लॉट नं 28 का समस्त भाग, माप 266.67 वर्ग गज, रूरल औद्योगिक एस्टेट लोनी, ग्राम धारकुटी खुर्द, जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित है, और सीमाएँ : पूर्व: प्लॉट नं. 27, पश्चिम: प्लॉट नं. 29 उत्तर: प्लॉट नं. 25, दक्षिण: 40 फीट सड़क
5	11515881 तथा 33749736	होम फाइनेंस एलएपी	1. पंकज शर्मा 2. महेश शर्मा उर्फ महेश चंद	07.09.2022	11,59,896.68/-	आवासीय भूखंड माप 300 वर्ग गज अर्थात 250.83 वर्ग मीटर का समस्त भाग, खसरा नं. 501, अयान सिटी, ग्राम और परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद में स्थित, और सीमाएँ: पूर्व: दूसरे की संपत्ति, पश्चिम: दूसरे की संपत्ति उत्तर: 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: दूसरे की संपत्ति
6	10217627	होम फाइनेंस एचएल	1.श्याम कृष्ण पाठक 2. प्रियंका पाठक	24.08.2022	11,43,442.39/-	भूतल पर संपत्ति/फ्लैट का समस्त भाग (छत के अधिकार के बिना), आच्छादित क्षेत्र 28 वर्ग मीटर, फ्री-होल्ड प्लॉट नंबर III-एफ/273, वैशाली, सेक्टर-3, परगना लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित है, और सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट नं. III-एफ/301, पश्चिमः रोड 19' चौड़ा, उत्तरः प्लॉट नं. III-एफ/272, दक्षिणः प्लॉट नं. III-एफ/274
7	14561521	गृह ऋण	1. सोनिका अमृतलाल	21.09.2022	9,45,016.34/-	पलैट नं. 3 (द्वितीय तल आर.एच.एस. बैंक साइड, दक्षिण पश्चिम फेसिंग, एल.आई.जी.), बिन रूफ राइट्स के, प्लॉट नं. ए-52, खसरा नं. 1306, माप 41.805 वर्ग मीटर, हयात एन्क्लेव, ग्राम् लोनी, परगना और तहसील- लोनी, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट नं. 53, पश्चिम: प्लॉट नं. 51, उत्तर: सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिण: प्लॉट नं. 59
8	14738791	गृह ऋण	1.मनोज कुमार	21.09.2022	11,58,850.42/-	आवासीय फ्लैट संख्या 201 का समस्त भाग, दूसरी मंजिल, (छत के अधिकार के साथ), पॉकेट-

गृह ऋण संपत्ति / मकान नं. 11 का समस्त भाग, प्लॉट एरिया, 30 वर्ग गज अर्थात 25.08 वर्ग मीटर, और 1. आकाश मिश्रा 21.09.2022 10,09,020.22/-14012702 2. मधु रबीशचंद 38 वर्ग मीटर (आच्छादित क्षेत्र), खसरा नं. 106 गांव सद्दीकनगर, परगना लोनी, तहसील और जिलाः गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित, और सीमाः पूर्वः प्लॉट नंबर 12,पश्चिमः प्लॉट नं. 11-ए, उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 14 फ्लैट नं. एस-1 का समस्त भाग, दसरी मंजिल, सम्पत्ति नं. बी-1/82, माप 342 वर्ग फीट, डीएलएप 1. प्रेमचंद 24.09.2022 15,56,722.09/-गृह ऋण 7948799

सी-46

एतद्वारा आपसे सम्बन्धित तिथि से से अनुबन्ध दर पर ब्याज सहित तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि का उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण के अनुसार इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफर्सी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफर्सी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) को राशि का भगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनयम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) के बकाया राशि की वस्ली के लिए यहां ऊपर उल्लिखित बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होगा। पुनः कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको विक्रय/पट्टे अथवा अन्य रीति से कथित किसी भी प्रतिभृत आस्ति को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

> ह./-अधिकृत प्राधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड

के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

सी, टाइप-एफ, माप 44.12 वर्ग मीटर (बिल्ट-अप एरिया), जिसमें 1 डाइंग कम डाइनिंग रूम

बेड रूम, 1 किचन, 1 टॉयलेट, प्लॉट नं. सी-045, खसरा नं 799, जोन ए राजस्व गांव शाहपुर

सीमाः पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः सङ्क ७ मीटर चौड़ा, उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः प्लॉट नं.

दिलशाद एक्सटेंशन - 2, रियर एलएचएस भाग, ब्रह्मपूर, भोपूरा, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,

201005, और, विलेख के अनुसार सीमा: पूर्व: सड़क 40 फीट, पश्चिम: प्लॉट नं. बी-

1/97.उत्तरः प्लॉट नं. बी-1/81. दक्षिणः प्लॉट नं. बी-1/83

बम्हेटा, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित है, और

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ए 5 जगत पुरी, मंडोली रोड, न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली 110032 ईमेल: D0953@psh.co.in ज्या-संचना (अचल संपत्ति के लिए

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अधोहस्ताक्षरी पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू मॉडर्न शाहदरा, नई दिल्ली शाखा के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 30.08.2022 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें मेसर्स कान्हा गारमेंट्स (प्रोप श्रीमती अलका गुप्ता पत्नी श्री राहल गुप्ता) (उधारकर्ता) को नोटिस में उल्लिखित राशि को उनके कैश क्रेडिट खाते में 29.08.2022 के अनुसार रु. 35,86,399.27 /- (पैतीस लाख छियासी हजार तीन सौ निन्यानबे रुपये और सत्ताईस पैसे मात्र) एवं उक्त राशि और आकरिमक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर लागू दर पर 30.08.2022 से प्रभावी भविष्य के ब्याज को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों की अवधि के भुगतान करने के लिए

उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतदवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 03 नवम्बर 2022 को प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतदवारा चेतावनी दी जाती है कि वे चल / दुष्टिबंधक संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक को उनके कैश क्रेडिट खाते में 29.08.2022 के अनुसार रु. 35.86.399.27 / -(पैंतीस लाख छियासी हजार तीन सौ निन्यानबे रुपये और सत्ताईस पैसे मात्र) एवं उक्त राशि और उस पर आकरिंमक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर लाग् दर पर 30.08.2022 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के लागत के प्रभार के अधीन होगा।

चल / दृष्टिबंधक संपत्ति का विवरण वल संपत्ति यानी इसके प्रोप श्रीमती अलका गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता, पता : प्रथम तल, IX / 4409, गली नंबर 7, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031 के माध्यम से

मेसर्स कान्हा गारमेंट्स के नाम पर रेडीमेड गारमेंट्स के स्टॉक का दृष्टिबंधन के सभी हिस्से और अंश। दिनांकः 04.11.2022 अधिकृत अधिकारी

स्थान : दिल्ली

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V. Fincare Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Small Finance Bank Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

(पंजाब एंड सिंध बैंक)

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained

to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below

schedule. Loan Account no Name of the borrower Auction Venue **Auction Date** 22660000030984 CHARANJEET SINGH FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD 11/11/2022 GROUND FLOOR SCO-143, SECTOR-9-0 22660000040695 | GAGANDEEP KAUR CHANDIGARH, CHANDIGARH, 160017 FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD: 11/11/2022 21660000801676 MR, VIKRAM 21660000806827 MR. BANTY RAWAT ROUND FLOOR, BLOCK BP NO 49 NEELAM BATA ROAD, AC NAGAR, NEW 21660000842128 ARUN SHARMA INDUSTRIAL TOWN, FARIDABAD, 21660000842568 MR. SONU HARYANA, 121001 21660000849805 | DILIP KUMAR SINGH

22660000027341 MR, VLIAY KUMAR !2660000170150 | HARINDER PANWAR FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD: 11/11/2022 21660000810129 MR, MANOJ PANDEY GROUND FLOOR: SHOP NO.10. SEC-10-L KHANDASA ROAD, GURUGRAM, HARYANA, 122001 21660000797741 MR. MOHAMMED AABIC FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD: 11/11/2022 GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, HUDA 21660000799358 SHEKHAR KAUSHK MARKET SECTOR-15. PART-II GURUGRAM, HARYANA, 122003

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form. which is made available before the commencement of auction.

अधिग्रहण सुचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8–(1)

के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित

(प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम

वर्णित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेत् एक मांग सूचन

किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) व

किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न अंकिताानुसार एक राहि

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथव

भुगतान कर देता है, ऐसी स्थिति में ''आईआईएफएल-एचएफएल'' द्वारा प्रतिभुत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा औ

ब्लॉक—जी, पॉकेट—20, तृतीय तल छताधिकारों के साथ, अट्ठावन हजार दो सौ छियासठ

समस्त वह भाग तथा अंश : भूतल, छताधिकारों के बिन रु. 39,24,495/- (रुपये उनतालिस

समस्त वह भाग तथा अंश : दक्षिणी छोर पर प्रथम तल, प्रोस्पेक्ट नं. 918713, रु. 2.55.544/-

छताधिकारों के बिना, अधिमापन 55 वर्ग गज, संपत्ति (रुपये दो लाख पचपन हजार पांच

110 वर्ग गज, खसरा नंबर 202 पर, ग्राम चौकरी मुबा 864064, रु. 9,79,286/- (रुपये नौ

रकाबाद के क्षेत्र, ओंकार नगर-बी के रूप में विदित लाख उन्यासी हजार दो सौ छियासी कॉलोनी, त्रि नगर, दिल्ली, 110035, भारत में स्थित है मात्र) तथा प्रोस्पेक्ट नं. 938018,

अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क करें: 30 / 30ई, ऊपरी भृतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग

जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली तथा ∕अथवा निगमित कार्यालय में संपर्क करें: भुखण्ड सं. 98, फेज−١٧, उद्योग विहार, गुडगांव

देयराशि (रु.)

लाख चौबीस हजार चार सौ

सौ चवालिस मात्र), प्रोस्पेक्ट नं.

रु. 2.09.945/- (रुपये दो लाख नौ

हस्ता. / – प्राधिकत अधिकारी, कर्त आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेर

समस्त वह भाग तथा अंश : संपत्ति संख्या 282 रु. 16.58.266/- (रुपये सोलह लाखा 17 अगस्त 05 नवंबर

'आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

(अचल सम्पत्ति) का विवरण

अधिमापन 31.69 वर्ग मीटर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली

प्रथम तल एवं द्वितीय तल, संपत्ति संख्या 3/77, पुराना

नंबर 33 और 34, अधिमापन 50 वर्ग गज, किला नंबर

संख्या २३१ / २२ का हिस्सा, प्लॉट नंबर ११, अधिमापन

08 व 13, मुस्तकिल नंबर—54, ग्राम खुरेजी खास, शाहद

रा. लक्ष्मी नगर. दिल्ली. भारत—110092

दक्षिण रेलवे

(निमाण सगठन)

एर्नाकुलम जंक्शन

निविदा सूचना संख्या 05-डीसीई-सीएन-ईआरएस-ओटी-2022 दिनांक: 05.11.2022

कार्य का नामः कुरुपपंथरा— चिंगवनम के बीच ट्रैक का दो. हरीकरण-एट्टमन्र और चिंगवनम स्टेशनों के बीच नए ट्रैक का प्रस्तावित रखरखाव; निविदा मूल्य : ₹ 117.01 लाख; समापन अवधिः 12 महीने; खुलने की तिथिः 28.11.2022 / 15.00 बजे। संपर्ण विवरण निविदा और दस्तावेज https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

> उप मुख्य अभियंता (निर्माण), I एर्नाकुलम जं

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

जोन दिल्ली ।। बी-38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 1, नारायणा, नई दिल्ली-110028

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा(४) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

अमन कलैक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U51109DL2007PTC161093) जिसका पंजीकृत कार्यालय: 123, अभिनव अपार्टमेंट बी-12, वसंधरा

एन्क्लेव, दिल्ली-110096 में हैं, के मामले में ..आवेदक कंपनी/ याचिकाकत्त तदद्वारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह **5**पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश

राज्ये" में स्थानांतरित करने के लिए 17 अगस्त,

2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में

पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन में संशोधन की पिष्ठ की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निमृलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें:-123, अभिनव अपार्टमेंट बी-12, वसंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से अमन कलैक्शंस प्राइवेट लिमिटेड सुधीर गुप्ता

(निदेशक) दिनांक: 09.11.2022 DIN: 00394339 स्थान: नई दिल्ली

2022

जनवरी

20 अगस्त 04 नवंबर

Punjab & Sind Bank विवास एएड सिंध सेंबर

पत्र में छपे ई-नीलामी जो कि 11.11.2022 को हो है के संदर्भ में हैं जिसमें से संपत्ति क्रम सं मैसर्स जग्गी ट्रैवल सर्विस (शाखाः जनकपुरी, न दिल्ली) की सम्पत्ति की ई-नीलामी को किन्हें अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गयी है। तथा क्रम सं. 4 (श्री लोकेश कुमार निझावन के खाते मे सुरक्षित मूल्य रु. 87,83,000 / – के स्थान प **रु. 88,00,000 / —** पढ़ा जाए और ईएमर

रु. 8,78,300 / – के स्थान पर रु. 8,80,000 / पढा जाए बाकी नियम व शर्ते पूर्वानुसार रहेंगी। दिनांक: 07.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्थानः नई दिल्ली

'IMPORTANT'

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements acting on an advertisement in any manner whatsoever.

आरमनी फिनवेस्ट लिमिटेड (पूर्व में बीएमबी फिनवेस्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) CIN: U 74899 DL 1996 PCL 081857 पंजी.कार्यालयः हाउस न. 348, तरूण एन्क्लेव, पीतमपूरा सिटी, काली माता मंदिर के पास, दिल्ली—110 034 ई—मेल:nbfccompliance@rmoneyindia.com

केन्द्र सरकार के समक्ष माननीय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नर्ड दिल्ली के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में और इनके मामले में

आरमनी फिनवेस्ट **लिमिटे**ड (पूर्व में **बीएमबी** फिनवेस्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकत कार्यालय हाउंस न. 348, तरूप एन्क्लेव, पीतमंपूरा सिटी, काली माता मंदिर वे पास, दिल्ली—110 034 में स्थित है।

आवे**दक क**म्पनी

सार्वजनिक सूचना एतदद्वारा आम जनता को सर्चित किया जाता कि आरमनी फिनवेस्ट लिमिटेड (पूर्व में बीएमर्ब फिनवेस्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था का पंजीकत कार्यालय दिल्ली के एनसीटी गुजरात राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार. न्वंबर, 2022 को आयोजित असाधारण आमसमा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी व मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II के प्रितंन की पुष्टि रस्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथ अन्य लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो उसके साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी कार्यालय माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकर के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे MCA-21 पोर्टर (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उपरोक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रॅंति के साथ इस सूचना के प्रकाशन क तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित क प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेंजें। कृते आरमनी फिनवेस्ट लिमिटेड (पूर्व में बीएमबी फिनवेस्ट लिमिटेड क

हस्ताक्षा सौरभ मित्तल दिनां कः 08.11.2022 स्थानः दिल्ली डीआईएन:00171148

नाम से जाना जाता था)

हरियाणा।

सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम

श्री नीरज कुमार, श्रीमती पुनम, राजधानी वाटर सप्लाई श्री डी डी

शर्मा, श्री प्रभात कमार भटनागर

श्री सुनील कुमार शर्मा

यूनीक एंटरप्राइजेज

प्रोस्पेक्ट संख्या ८०५,९८७)

श्रीमती मंजू बाल

सुश्री नेहा शर्मा

(प्रोस्पेक्ट नं. 918713, 864064 और

938018)

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 09.11.2022

जीईएम सूचना

दक्षिण रेलवे

मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), दक्षिण रेलवे, मद्रै– 625016 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से सरकारी ई-मार्केटिंग प्लेस (जीईएम) पोर्टल में दिए गए निविदा नोटिस के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ठेकेदारों से दो पैकेट प्रणाली में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । मद्रै मंडल में कार्यों के लिए आवेदन करने वाले निविदाकारों / ठेकेदारों को जीईएम पोर्टल में नामांकित होने की आवश्यकता है और केवल ऑनलाइन निविदाएं स्वीकार की जाएंगी। कार्य का नामः रामेश्वरम, तिरुनेलवेली, विरुधुनगर और कोविलपट्टी रेलवे स्टेशनों पर 730 दिनों के लिए व्यापक हाउसकीपिंग। क्रं सं.1:जीईएम बोली संख्याः जेम / 2022 /बी / 2698483, दिनांक: 05.11.2022; कार्य स्थानः विरुधुनगर और कोविलपट्टी – एमडीयू डिवीजन; कार्य का मूल्यः ₹ 1,25,97,803 /—; निविदा बंद करने की तिथिः 26.11.2022, क्रं सं.2 ;जीईएम बोली संख्याः जेम / 2022 / बी / 2696324, दिनाकः 05.11.2022; कार्य स्थानः रामेश्वरम – एमडीयू डिवीजन; कार्य का मूल्यः ₹ 91,88,495.4 / —; निविदा बंद करने की तिथिः 26.11.2022.

क्रं सं.३ ;**जीईएम बोली संख्याः जेम / 2022** / बी / 2702693, दिनाकः 05.11.2022, कार्य स्थानः **तिरुनेलवेली – एमडीयू डिवीजन**; कार्य का मूल्यः ₹ 1,21,34,748 / –; निविदा बंद करने की तिथि: 26.11.2022.

विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट www.Gem.gov.in पर विस्तृत निविदा सूचना में उपलब्ध है। मंडल पर्यावरण

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

हाउसकीपिंग मैनेजर, मदुरै - 625016

Place: Delhi

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14 Dayanand Vihar, Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi- 110092 Tel: +91-11-43011038, Website: www.akashdeepmetal.in, Email: info.akashdeep14@gmail.com CIN: L28998DL1983PLC017150

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

(Amount in Rupees) Quarter Ended Year Ended **Particulars** Quarter Ended No. 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 Unaudited Unaudited Audited Total Income from operations 4,93,55,115 2,08,83,856 9,69,11,081 1,17,91,060 70,54,884 3,22,85,509 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional 70,54,884 3,22,85,509 1.17.91.060 and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or 92,87,120 45,56,477 2,56,77,406 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ 92,87,120 45,56,477 2,58,11,004 (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 1 Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-) 10,50,26,210 8,50,26,210 8,50,26,210 28,44,59,003 Other Equity 12,31,43,276 21,27,74,476 Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic 0.88 0.54 3.04 Diluted 0.88 0.54 3.04

Notes: The above is an extract of the detailed format of result for Quarter and Half-Year ended on 30th September, 2022 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results

are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the Company's website at www.akashdeepmetal.in. The Key information of Openhalms Figure in Dec. He for Openhalms He He Key in the Coopenhalms Coopenha

2)	2) The Key Information of Standalone Financial Results for Quarter and Half-Year ended on 30" September, 2022 are given below:							
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2022	Quarter Ended 30.09.2021	Year Ended 31.03.2022				
1	Turnover	4,02,91,569	97,41,148	4,08,85,162				
2	Profit before tax	65,21,894	18,26,236	53,93,342				
3	Profit after tax	51,46,615	9,92,725	41,61,672				
		1	Dy	andon of the Deen				

By order of the Board

For Akashdeep Metal Industries Limited Rajesh Gupta

Chairman & Managing Director Dated: November 07, 2022 DIN: 00006056

www.readwhere.com